



अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर

वित्तीय वर्ष : 2025-2026

30 वां वार्षिक प्रतिवेदन



वार्षिक साधारण सभा

बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2026

सायं 4.00 बजे

स्थान : श्री रामबाग दादावाड़ी, रामबाग, इन्दौर

अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, इन्दौर

अभय प्रशाल, 10, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452 003 (म. प्र.)

दिनांक 18.9.2022 से कार्यरत संचालक मण्डल की सूची

बैंक की उपविधिक क्रमांक 28 (1) के अनुसार निर्वाचित संचालक मण्डल की सूची

क्र.	नाम	पद	पता
1.	श्री डॉ. प्रकाश बांगानी	अध्यक्ष	27/1, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
2.	श्री ईश्वर जोशी	उपाध्यक्ष	1, कुँवर मंडली, इन्दौर
3.	श्री पारस बोहरा	उपाध्यक्ष	576/6, एम. जी. रोड, इन्दौर
4.	श्री विजय मेहता	संचालक	136, कंचनबाग, इन्दौर
5.	श्री मोहनलाल वर्मा	संचालक	120, कागदीपुरा, इन्दौर
6.	श्री प्रकाश बड़नगर	संचालक	52, बड़ा सराफा, इन्दौर
7.	श्री पीयूष मेहता	संचालक	507-ए, गुलमर्ग प्राईड, कनाडिया रोड, इन्दौर
8.	श्री यशवन्त जैन	संचालक	253, अनूप नगर, इन्दौर
9.	श्री अनुरोध जैन	संचालक	129, तिलक पथ, इन्दौर
10.	श्री पंकज पांडे	संचालक	85, कुम्हार खाड़ी, इन्दौर
11.	श्री पदम् जैन	संचालक	31, ओम कुटी, पलहर नगर, इन्दौर
12.	श्री महेन्द्र खिची	संचालक	सी.एम.-II, 163, सुखलिया, इन्दौर
13.	श्रीमती आभा सैनी	संचालक	3, सर्व सुविधा नगर, इन्दौर
14.	श्रीमती सपना बांगानी	संचालक	8/2, वाय. एन. रोड, इन्दौर
15.	श्री अमित फतरोड़	संचालक	319, देव नगर, इन्दौर
16.	श्री विनोद मेहता	वृत्तिक संचालक	जी-1, सुख सागर अपार्टमेन्ट, 30, महावीर नगर, इन्दौर
17.	श्री रमेशचन्द्र हाड़ा	वृत्तिक संचालक	158, अमितेश नगर, इन्दौर



अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड

(म. प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत पंजीयन नं. 9/96 दि. 24-12-96)

अभय प्रशाल, 10, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452 003 (म. प्र.)

फोन : 4004898 E-mail : arihant@aucbl.com

इन्दौर दिनांक : 08.09.2026

तीसवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

बैंक की तीसवीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, दिनांक 23.09.2026, को सायं 4.00 बजे स्थान श्री रामबाग दादावाड़ी, रामबाग, इन्दौर पर आयोजित की गई है। इसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक आधे घंटे बाद नियत दिनांक तथा स्थान पर की जाएगी, जिसमें गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

सभा में विचारणीय विषय -

1. गत वार्षिक सभा दिनांक 26 सितम्बर 2025 की कार्यवाही की पुष्टि करना।
2. बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन (लाभ-हानि एवं तुलन-पत्रक) वर्ष 2025-2026 को स्वीकृति प्रदान करना।
3. अंकेक्षण प्रमाण-पत्र वर्ष 2025-2026 की पुष्टि करना।
4. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित लाभ विनियोजन वित्तीय वर्ष 2025-26 को स्वीकृति प्रदान करना।
5. वर्ष 2027-2028 के अनुमानित आय-व्यय पत्रक (बजट) को स्वीकृति प्रदान करना एवं वर्ष 2025-2026 में बजट से अधिक व्यय हुई राशि को स्वीकृति प्रदान करना।
6. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

सही /-

रमेशचन्द्र गोयल

प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी

अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि.

नोट :

1. वित्तीय पत्रक के संबंध में यदि कोई सामान्य प्रश्न या जानकारी अभिष्ट हो तो उसे बैंक में दिनांक 19 सितम्बर 2026 तक भेजने का कष्ट करें, इस अवधि के पश्चात् प्राप्त प्रश्नों/पत्रों को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. बैंक की स्थिति विवरणी पत्रक एवं लाभ-हानि पत्रक की मूल प्रति बैंक परिसर में अवलोकनार्थ रखी गई है एवं बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
3. साधारण सभा में प्रवेश केवल बैंक के सदस्यों को ही दिया जायेगा, अतः सदस्यता पास-बुक अवश्य साथ लावें एवं असुविधा से बचें। अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।



तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन

सम्माननीय सदस्य महानुभावों,

अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. के अंशधारियों की तीसवीं वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का बैंक की ओर से स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपके समक्ष वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रक, लाभ-हानि एवं स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा एवं सहकारी बैंकों के लिये विपरीत परिस्थितियों के बीच भी बैंक आपके सहयोग के साथ कार्य कर रही है।

संचालक मंडल : संचालक मंडल दिनांक 18 सितम्बर 2022 से कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 बैठकें हुईं इसी प्रकार ऋण समिति की 13 बैठकें हुईं इनके अतिरिक्त अन्य उपसमितियों की भी बैठकें सम्पन्न हुईं।

सदस्यता : बैंक के वित्तीय वर्ष 2025 में कुल सदस्य संख्या 2758 थी वर्षान्त पर सदस्यता 2738 रही।

अमानतें : बैंक की कुल जमा राशि दिनांक 31 मार्च 2025 को रु. 1899.99 लाख थी एवं 31 मार्च 2026 की समाप्ति पर 1528.04 लाख रही।

ऋण एवं अग्रिम : वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्षान्त पर ऋण एवं अग्रिम 601.94 लाख शेष रहा, जो कि 31 मार्च 2026 के 545.05 लाख रहा।

विनियोजन : वर्षान्त पर कुल विनियोजन 842.79 लाख शेष रहा। वर्ष 2026 में प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी होने के कारण रु. 4.11 लाख का प्रवाधान किया गया। प्रावधान लाभ-हानि खाते में हस्तांतरित किया गया।

एन.पी.ए. : वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल एन.पी.ए. 19.91 लाख था जो वर्ष 2025-26 में बढ़ कर 23.78 लाख रहा ऋण वसूली के प्रयास जारी हैं।

लाभ-हानि : वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात् बैंक को रु. 15.64 लाख का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।

लाभ विनियोजन : बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु. 24,64,221.83 का सकल लाभ अर्जित किया था अग्रिम आयकर का भुगतान करने के बाद शुद्ध लाभ रु. 15,64,221.83 रहा। जिसकी विनियोजन की स्वीकृति साधारण सभा से अपेक्षित है।

कार्यशील पूंजी : वर्ष 2024-25 में 2144.01 लाख थी एवं वर्ष 2025-26 में रु. 1802.49 लाख रही।

ग्राहक सुविधा : बैंक के समस्त ग्राहकों हेतु मोबाईल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सुविधाएँ कार्यशील हैं।

अंत में बैंक के ग्राहक एवं अंशधारियों के असामयिक निधन पर हम उन सभी के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं।

मैं आप सभी से बैंक की निरन्तर प्रगति की कामना एवं उज्ज्वल भविष्य की आशा करते हुए आगामी वर्षों में उत्तम सेवाएँ एवं सुविधाएँ प्रदान कर बैंक को नई ऊँचाईयों पर ले जाने हेतु आप सभी से सहयोग एवं विश्वास की अपेक्षा करता हूँ तथा हमारे सम्माननीय ग्राहकों व अंशधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

धन्यवाद !

जय सहकार

सही / -

डॉ. प्रकाश बांगानी

अध्यक्ष

अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि.



विषय क्र. 2

स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	पूँजी एवं दायित्व	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
	(1) अंश पूँजी		3,00,00,000.00
	सदस्यों के लिए अधिकृत पूँजी रु 100/- प्रति अंश के हिसाब से कुल अंश 300000/- सदस्यों को बिक्री किए हुए अंश रु. 100/- प्रति अंश के हिसाब से कुल 92066 अंशधारी 2738		92,06,600.00
93,51,100.00			
	(2) रक्षित कोष एवं अन्य निधियाँ		1,51,24,140.88
58,90,933.90	(i) रक्षित कोष निधि	69,60,933.90	
19,90,980.83	(ii) संशयित एवं डूबत ऋण निधि	23,77,919.00	
9,08,500.00	(iii) इनवेस्टमेंट डेप्रिसियेशन रिजर्व	13,19,500.00	
2,07,260.00	(iv) धर्मादा निधि	2,27,510.00	
17,95,888.00	(v) संशयित एवं डूबत ऋण निधि (लाभ)	18,97,138.00	
2,72,129.00	(vi) शिक्षा प्रशिक्षण निधि	3,12,629.00	
20,24,000.00	(vii) इनवेस्टमेंट फ्लक्शचुएशन रिजर्व	20,24,000.00	
	(viii) लाभ समीकरण निधि	4,510.98	
	(3) राज्य शासन का पूँजी अथवा भागीदारी में विनियोजन		
	(4) अमानतें तथा अन्य खाते		15,28,03,742.98
	अ. मियादी अमानत		
29,19,519.00	(i) व्यक्तिगत	47,21,225.00	
19,92,386.00	(ii) संस्थाएँ	21,71,253.00	
	ब. मासिक आय जमा रसीद		
18,65,000.00	(i) व्यक्तिगत	18,55,958.00	
0.00	(ii) संस्थाएँ	0.00	
	स. पुनर्विनियोजन जमा रसीद		
9,33,98,952.00	(i) व्यक्तिगत	4,99,72,147.00	
1,23,66,532.00	(ii) संस्थाएँ	1,36,56,981.00	
	द. तिमाही आय जमा रसीद		
1,05,66,814.00	(i) व्यक्तिगत	1,06,37,129.00	
14,55,49,994.73	योग	C/F	17,71,34,483.86



स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	सम्पत्ति एवं आस्तियाँ	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
18,66,977.00	(1) रोकड़ नगदी सिल्लक कार्यालय में	25,80,165.00	25,80,165.00
2,20,46,795.50	(2) बैंकों में अतिशेष (i) चालू खाता	2,83,52,403.64	3,78,69,403.64
1,10,17,000.00	(ii) मियादी खाता	95,17,000.00	
	(3) मांग और अल्प सूचना पर प्राप्त राशि		
	(4) विनियोजन		8,42,79,000.00
11,36,13,000.00	(i) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियाँ सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन	8,42,78,000.00	
1,000.00	(ii) सहकारी बैंकों एवं संस्थाओं के अंश इन्दौर प्रिमियर को-ऑप. बैंक अंश खाता	1,000.00	
2,86,000.00	(iii) टेक्स फ्री बाण्ड	0.00	
50,00,000.00	(iv) नान एसएलआर कोटक फण्ड	0.00	
	(5) राज्य शासन के प्रमुख अथवा भागीदारी निधि में		
15,38,30,772.50	योग	C/F	12,47,28,568.64



विषय क्र. 2

स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	पूँजी एवं दायित्व	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
14,55,49,994.73	C/F		17,71,34,483.86
66,03,000.00	(ii) संस्थाएँ	90,19,983.00	
	क. आवर्ती अमानत		
2,18,673.00	(i) व्यक्तिगत	4,17,673.00	
0.00	(ii) संस्थाएँ	0.00	
	ख. बचत अमानत		
3,14,72,074.47	(i) व्यक्तिगत	2,13,86,819.06	
68,89,634.00	(ii) संस्थाएँ	1,79,74,209.68	
	ग. चालू खाता अमानत		
16,79,398.00	(i) व्यक्तिगत	65,677.63	
1,51,69,233.71	(ii) संस्थाएँ	1,53,48,724.17	
52,823.59	घ. क्रेडिट बेलेन्स ओवर ड्राफ्ट खाता	1,83,468.04	
	क्रेडिट बेलेन्स मियादी जमा ऋण	29,631.40	
48,05,291.00	ड. अनिवार्य जमा खाता	53,62,864.00	
	(5) अन्य बैंककारी कम्पनियों एजेंटों		
	आदि से उधार बैंक कम्पनी		
	ओ.डी. खाता आदि		
	(6) वसूली के लिए स्वीकृत बिल्स		
	(दोनों ओर समान जोड़)		
	(7) शाखान्तर्गत खातों का मिलान		
	(8) कालातीत ब्याज निधि		13,55,631.61
9,50,078.75	कालातीत ब्याज तिथि	13,55,631.61	
	(9) अमानतों पर देय ब्याज		67,726.00
2,11,600.00	मियादी अमानत पर	67,726.00	
	(10) अन्य दायित्व		30,46,697.81
21,36,01,801.25	योग	C/F	18,16,04,539.28



स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	सम्पत्ति एवं आस्तियाँ	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
15,38,30,772.50	C/F		12,47,28,568.64
	(6) ऋण एवं अग्रिम		5,45,04,760.09
15,15,784.62	(i) केश-क्रेडिट ऋण (सी.सी.)	0.00	
28,20,386.90	(ii) चालू खाता ओ.डी.	25,84,545.55	
9,88,249.60	(iii) मियादी तारण	12,25,885.16	
41,48,475.48	(iv) असुरक्षित मध्यकालीन ऋण	33,56,245.61	
59,56,664.20	(v) सुरक्षित मध्यकालीन ऋण	64,80,053.10	
1,60,45,147.02	(vi) सुरक्षित दीर्घावधि ऋण	1,55,80,646.52	
79,77,786.74	(vii) ओव्हर ड्राफ्ट मार्डगेज	63,30,651.03	
27,31,788.00	(viii) स्वर्ण आभूषण तारण ऋण	45,17,216.86	
1,80,09,362.00	(ix) ओव्हर ड्राफ्ट स्वर्ण आभूषण	1,44,29,516.26	
	(7) ब्याज लेना		21,61,647.61
9,50,078.75	(i) ऋण एवं अग्रिम पर	13,55,631.61	
7,39,200.00	(ii) उपार्जित ब्याज शासकीय प्रतिभूति विनियोजन	5,28,348.00	
6,08,162.00	(iii) उपार्जित ब्याज विनियोजन/एचडीएफसी	37,900.00	
	(iv) उपार्जित ब्याज सिडबी बैंक	17,768.00	
	(v) उपार्जित ब्याज जनस्माल फायनेंस बैंक	2,22,000.00	
	(8) वसूली के लिये भेजे गये बिल्स (दोनों ओर समान जोड़)		
	(9) शाखान्तर्गत खातों का मिलान		
7,66,316.00	(10) अचल सम्पत्तियाँ		6,62,557.00
	(i) अचल सम्पत्ति	7,66,316.00	
	(ii) वर्ष में खरीदी	8135.60	
	(iii) वर्ष में विक्रय	0.00	
	(iv) वर्ष में छीजन	1,11,894.60	
21,70,88,173.81	योग	C/F	18,20,57,533.34



विषय क्र. 2

स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	पूँजी एवं दायित्व	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
21,36,01,801.25	B/F		18,16,04,539.28
3,44,910.00	(i) प्रबंधक धनादेश ..	3,63,400.00	
38,418.00	(ii) सण्डी क्रेडिटर्स ..	5,19,231.45	
22,275.00	(iii) अंकेक्षण शुल्क देय ..	22,325.00	
2,42,726.00	(iv) कान्टीजेन्ट प्रोव्हीजन स्टेण्डर्ड असेट्स पर ..	2,42,726.00	
10,000.00	(v) बिजली/टेलीफोन बिल देय ..	10,000.00	
1,85,791.70	(vi) साधारण सभा खर्च हेतु प्रावधान ..	2,02,083.70	
4,92,385.00	(vii) लाभांश हेतु प्रावधान ..	5,00,057.00	
12,589.08	(viii) एसजीएसटी/सीजीएसटी देय ..	33,792.44	
2,00,000.00	(ix) आयकर प्रावधान ..	9,00,000.00	
2,00,000.00	(x) निर्वाचन हेतु प्रावधान ..	2,00,000.00	
	(xi) एचडीएफसी बैंक डीडी पेयबल ..	50,332.22	
	(xii) शेयर एप्लीकेशन मनी ..	2,750.00	
20,25,098.98	(11) लाभ-हानि खाता .. चालू वर्ष का लाभ ..	15,64,221.83	15,64,221.83
21,73,75,995.01	महायोग ..		18,31,68,761.11
31,997.06	दोनों ओर समाश्रयित जोड़ .. बैंक ग्यारंटी एवं डीफ फण्ड आदि ..	16,16,073.59	

दिपेश लिखार पार्टनर
एन. सी. सराफ एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

डॉ. प्रकाश बांगानी
अध्यक्ष



स्थिति विवरण-पत्रक, दिनांक 31 मार्च 2026

गत वर्ष 31.3.2025 रुपये पैसे	सम्पत्ति एवं आस्तियाँ	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
21,70,88,173.81	C/F		18,20,57,533.34
	(11) अन्य आस्तियाँ		11,11,227.77
20,398.00	(i) स्टेशनरी लेखन सामग्री (स्टॉक)	87,907.00	
13,201.00	(ii) अग्रिम (टेलीफोन/बिजली)	14,080.00	
1,50,000.00	(iii) अग्रिम (भवन स्वामी)	1,50,000.00	
5,147.80	(iv) अग्रिम (सरसई कम्पनी)	4,747.80	
4,674.40	(v) सीकेव्हायसी डिपाजिट भुगतान	3,204.40	
94,400.00	(vi) अग्रिम सर्वत्र/एनपीसीआई	93,928.00	
0.00	(vii) सीजीएसटी/एसजीएसटी रिसिवेबल	40,010.57	
0.00	(viii) अग्रिम कर जमा	7,17,350.00	
	(12) लाभ-हानि खाता		
21,73,75,995.01	महायोग		18,31,68,761.11

मोहनलाल वर्मा
संचालक

रमेशचन्द्र गोयल
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी



लाभ-हानि पत्रक, वित्तीय वर्ष 2025-2026

गत वर्ष 2024-25 रुपये पैसे	व्यय	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
	(1) अमानतों पर ब्याज		57,33,449.00
87,87,979.00	(अ) मियादी अमानत पर	45,36,191.00	
10,61,383.00	(ब) बचत अमानत पर	11,63,178.00	
87,898.00	(स) आवर्तक अमानत पर	33,902.00	
1245.00	(द) अग्रिम/उधार पर	178.00	
	(2) वेतन एवं भत्ते		29,99,176.00
32,44,367.00	वेतन	29,99,176.00	
	(3) डायरेक्टर्स एवं लोकल कमेटी फीस		
	(4) किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यय		19,94,639.47
5,46,000.00	(अ) किराया	5,46,000.00	
2,87,252.66	(ब) बीमा	2,51,959.46	
1,05,057.08	(स) विद्युत व्यय	1,06,844.00	
1,46,207.18	(द) जीएसटी कर	1,25,581.01	
9,50,000.00	(इ) आयकर/अग्रिम कर	9,00,000.00	
5,005.00	(ई) लायसेन्स शुल्क कर	5,005.00	
96,850.00	(ई) संवत्ति लेख परीक्षा शुल्क	59,250.00	
	(5) डाक तार एवं टेलीफोन		18,258.00
5,158.00	(अ) डाक व्यय	2,678.00	
16,420.47	(ब) टेलीफोन व्यय	15,580.00	
18,974.18	(6) अंकेक्षण शुल्क	22,625.00	22,625.00
	(7) भवन दुरुस्ती एवं छीजन		1,11,894.60
1,42,459.00	फर्नीचर एवं छीजन	1,11,894.60	
	(8) स्टेशनरी, प्रिन्टिंग एवं विज्ञापन		14,913.00
15,336.16	(अ) स्टेशनरी एवं प्रिन्टिंग	14,913.00	
2,500.00	(ब) विज्ञापन	0.00	
1,55,20,091.73	योग	C/F	1,08,94,955.07



लाभ-हानि पत्रक, वित्तीय वर्ष 2025 -2026

गत वर्ष 2024-25 रुपये पैसे	आय	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
	(1) ब्याज प्राप्त		1,20,40,200.14
28,88,135.74	(अ) ऋण एवं अग्रिम पर	23,41,746.66	
11,36,584.16	(ब) केश क्रेडिट पर	10,59,279.52	
4,56,756.70	(स) चालू खाता ओव्हर ड्राफ्ट पर	4,49,720.00	
15,62,486.00	(द) स्वर्ण आभूषण तारण ऋण	21,81,750.14	
3,84,819.00	(क) विनियोजन पर अर्जित ब्याज	1,83,666.00	
71,22,264.61	(ख) शासकीय प्रतिभूति पर अर्जित ब्याज	24,46,151.82	
4,60,162.00	(ग) उपार्जित ब्याज विनियोजन पर	6,94,200.00	
7,39,200.00	(घ) उपार्जित ब्याज शासकीय प्रतिभूति पर	24,28,314.22	
4,76,180.38	(उ) अन्य विनियोजन पर प्राप्त ब्याज	0.00	
	(च) कोटक म्युचुअल फण्ड	2,09,245.50	
	(छ) आदित्य बिरला म्युचुअल फण्ड	41,027.78	
	(ज) आयसीआयसीआय म्युचुअल फण्ड	5,098.50	
	(2) कमीशन एवं एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज		1,74,665.29
1,42,438.28	कमीशन	1,74,665.29	
	(3) सबसिडीज एवं डोनेशन		
16,05,000.00	(4) नान बैंकिंग स्वरूप माल मत्ता से प्राप्त लाभ अथवा सरकारी प्रतिभूति के क्रय/विक्रय से प्राप्त लाभ	6,98,000.00	6,98,000.00
	(5) अन्य प्राप्तियाँ		14,24,946.32
11,95,634.74	(अ) लॉकर्स किराया	11,85,700.00	
50,931.48	(ब) विविध आय	16,140.34	
4,487.22	(स) व्यवस्थापन शुल्क	5,296.54	
1,82,25,080.31	योग	C/F	1,43,37,811.75



लाभ-हानि पत्रक, वित्तीय वर्ष 2025-2026

गत वर्ष 2024-25 रुपये पैसे	व्यय	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
1,55,20,091.73	B/F		1,08,94,955.07
	(9) नान बैंकिंग स्वरूप माल मत्ता से हुई हानि		4,11,000.00
1,02,500.00	विनियोजन एवं घसारा निधि	4,11,000.00	
0.00	(10) डूबत ऋण (एनपीए) हेतु प्रावधान	03,86,938.17	03,86,938.17
	(11) अन्य व्यय		10,80,696.68
1,76,000.00	(अ) वार्षिक साधारण सभा व्यय	1,51,000.00	
1,73,912.36	(ब) विविध व्यय	1,84,489.20	
41,043.00	(स) कार्यालयीन व्यय	55,966.00	
49,066.18	(द) समाशोधन गृह चार्जेस	47,001.64	
15,730.00	(इ) वाहन व्यय	11,960.00	
23,523.00	(क) फोटोकॉपी एवं टायपिंग चार्जेस	17,969.96	
26,050.00	(ख) अनुदान (सब्सक्रिप्शन)	36,850.00	
31,151.00	(ग) प्रवास व्यय	16,223.00	
1,28,641.77	(घ) कम्प्यूटर मेन्टेनेंस रिपेयर्स	55,182.38	
5207.96	(च) कम्प्यूटर स्टेशनरी	4702.00	
641.20	(छ) कानूनी शुल्क	56,185.00	
1,74,611.74	(ज) सिक्युरिटी गार्ड खर्च	1,82,575.12	
2,00,000.00	(झ) निर्वाचन हेतु प्रावधान	0.00	
44,092.82	(ट) मोबाईल बैंकिंग चार्जेस	2,60,592.38	
20,25,098.98	(12) वर्ष का शुद्ध लाभ	15,64,221.83	15,64,221.83
1,87,37,361.74	महायोग		1,43,37,811.75

दिपेश लिखार पार्टनर
एन. सी. सराफ एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

डॉ. प्रकाश बांगानी
अध्यक्ष



लाभ-हानि पत्रक, वित्तीय वर्ष 2025-2026

गत वर्ष 2024-25 रुपये पैसे	आय	रकम रुपये पैसे	रकम रुपये पैसे
1,82,25,080.31	B/F		1,43,37,811.75
9,689.68	(द) चेक बुक चार्जेंस ..	7,769.44	
7,320.00	(क) आयकर अग्रिम ब्याज प्राप्त ..	10,040.00	
4,95,271.75	(ख) एनपीए खातों में प्राप्त वसूली ..	0.00	
0.00	(ग) आयकर रिफण्ड	0.00	
0.00	(घ) वेतन भत्ते हेतु प्रावधान ..	2,00,000.00	
0.00	(6) हानि यदि कोई हो तो वित्तीय वर्ष में हानि	0.00	0.00
1,87,37,361.74	महायोग		1,43,37,811.75

मोहनलाल वर्मा ..
संचालक

रमेशचन्द्र गोयल ..
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी



अंकेक्षण प्रमाण पत्र

वर्ष 2025 - 2026

विषय क्र. 3

मैं दिपेश लिखार चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, पार्टनर मेसर्स एन. सी. सराफ एण्ड कम्पनी, इन्दौर अंकेक्षक अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. इन्दौर निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर पंजीयन क्रमांक संयुक्त पंजीयक/इन्दौर/9/96 दिनांक 24.12.1996 का वर्ष 2025-2026 का अंकेक्षण, पंजीयक सहकारी समितियाँ, मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रणाली से पूरा किया।

बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र विधिवत सही व नियमानुसार होकर बैंक द्वारा सुरक्षित रखा गया है। मैंने अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लि. इन्दौर के दिनांक 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष का स्थिति विवरण पत्रक तथा लाभ-हानि पत्रक का परीक्षण संबंधी लेखाओं से किया।

अतः मेरे मत के अंकेक्षण टीप में उल्लेखित एम.ओ.सी. (मेमोरेन्डम ऑफ चैंजेस) एवं विस्तृत टिप्पणियाँ एवं आक्षेपों को छोड़कर—

1. मेरे मत से बैंक का व्यवहार साधारणतः सही व प्रमाणिकता से बैंक के उपनियमों, सहकारी संस्थाओं प्रचलित धाराओं तथा उनके बनाये गये नियमों, पंजीयक द्वारा समय-समय पर प्रसारित परिपत्रों एवं बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949 (जो सहकारी बैंकों पर लागू होता है) के अनुसार है व जहाँ मामूली त्रुटियाँ एवं आपत्तियाँ पाई गई उनका निराकरण अंकेक्षण के समय कर लिया गया।
2. बैंक का स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारियाँ जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति के संबंध में बताई गई है उनका समावेश इन पत्रकों में है। एम.ओ.सी. (मेमोरेन्डम ऑफ चैंजेस) एवं आपत्तियाँ ऑडिट नोट में बताई गई है।
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध करायी गयी है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार एवं व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अन्तर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो प्रपत्र बुलाये गये है उनमें मेमोरेन्डम ऑफ चैंजेस के समावेश के पूर्व सभी पूर्ण एवं पार्यप्त है।
6. लाभ-हानि पत्रक मेमोरेन्डम ऑफ चैंजेस के पश्चात शेष लाभ का सही चित्रण करता है।
7. बैंक की स्थिति विवरण-पत्रक एवं लाभ-हानि पत्रक नियमों के अनुरूप रखे गये है।

अतः कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित निर्देशों में की गई कसौटी एवं दिशा निर्देशों एवं तथ्यों के आधार पर बैंक को “अ” वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ। विस्तृत जानकारी संलग्न है। वर्ष 2025-2026 के लिए अंकेक्षण वर्गीकरण “अ” की पुष्टि करता हूँ।

स्थान : इन्दौर

दिनांक : 25.06.2026

UDIN : 26478938XDYCD2776

एन. सी. सराफ एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

Firm Reg. No. 00777C

सीए दिपेश लिखार

पार्टनर

Reg. No. 478938



विषय क्र. 4

संचालक मण्डल बैठक दिनांक 07.09.2026 में अनुशंसित लाभ विनियोजन
बैंक की उपविधि क्रमांक 44 एवं मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 43 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2025-2026 में प्राप्त लाभ का प्रस्तावित विनियोजन निम्नानुसार है,
जिसकी स्वीकृति साधारण सभा से अपेक्षित है।

वर्ष 2025-2026 में कुल प्राप्त सकल लाभ	रु. 24,64,221.83
चालू वर्ष अग्रिम आयकर भुगतान	रु. 9,00,000.00
शुद्ध लाभ	रु. 15,64,221.83
कुल वितरण योग्य लाभ	रु. 15,64,221.83
क्र. मद का नाम	राशि
1. रक्षित कोष निधि	रु. 3,91,100.00
2. डूबत ऋण के लिए प्रावधान (लाभ का 5 प्रतिशत)	रु. 78,200.00
3. धर्मार्थ निधि (लाभ का न्यूनतम 1 प्रतिशत)	रु. 15,600.00
4. जिला सहकारी संघ को चन्दा देय (लाभ का 1.50 प्रतिशत)	रु. 23,500.00
5. शिक्षा प्रशिक्षण निधि (लाभ का 2 प्रतिशत)	रु. 31,300.00
6. अंश पूंजी रु. 92,06,600.00 पर सदस्यों को 8 प्रतिशत के अनुमान से (न्यूनतम रु. 200/- प्रति सदस्य लाभांश)	रु. 7,36,528.00
7. नफा समीकरण निधि	रु. 2,87,993.83
कुल योग	रु. 15,64,221.83

नोट : आयकर भुगतान की राशि ज्यादा या कम होने पर नफा समीकरण निधि में समायोजित की जावेगी।।

डॉ. प्रकाश बांगानी
अध्यक्ष

रमेशचन्द्र गोयल
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी

विषय क्र. 5

संचालक मण्डल बैठक दिनांक 07.09.2026 में अनुशंसित
वर्ष 2025-2026 में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय हुई राशि को स्वीकृति प्रदान करना।

(राशि रु.)

क्र.	मद का नाम	पूर्व में स्वीकृत अनुमानित बजट 2025-26	वास्तविक खर्च 2025-26	अधिक व्यय हुई राशि
1.	ऑडिट/वीएपीटी फीस	0.00	59,250.00	59,250.00
2.	साधारण सभा खर्च	1,50,000.00	1,51,000.00	1,000.00
3.	फोटोकॉपी एवं टायपिंग ...	12,000.00	17,969.96	5,969.96
4.	विविध व्यय	2,00,000.00	2,40,455.20	40,455.20
5.	लीगल व्यय	20,000.00	56,185.00	36,185.00
6.	सिक्युरिटी व्यय	1,80,000.00	1,82,575.12	2,575.12
	कुल योग	5,62,000.00	7,07,434.32	1,45,434.32

नोट : उपरोक्त मदों में पूर्व में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय हुआ है जिसकी स्वीकृति साधारण सभा से अपेक्षित है।

डॉ. प्रकाश बांगानी
अध्यक्ष

रमेशचन्द्र गोयल
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी



विषय क्र. 5

अनुमानित आय-व्यय पत्रक वर्ष 2027-2028
(संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.09.2026 में अनुशंसित)

व्यय			आय	
क्र.	मद का नाम	वर्ष 2027-28 अनुमानित	मद का नाम	वर्ष 2027-28 अनुमानित
1.	ब्याज देय मियादी अमानत	65,00,000.00	ब्याज ऋण एवं अग्रिम	75,00,000.00
2.	वेतन, बोनस एवं पारिश्रमिक	36,00,000.00	ब्याज विनियोजन पर	61,00,000.00
3.	भवन किराया	6,00,000.00	कमीशन एवं एक्सचेंज	3,00,000.00
4.	बीमा	3,00,000.00	लॉकर किराया	12,50,000.00
5.	विद्युत व्यय	1,50,000.00	प्रवेश शुल्क./व्यवस्था शुल्क	50,000.00
6.	लायसेन्स फीस/जी.एस.टी.	1,80,000.00	अन्य आय	1,75,000.00
7.	समवर्ती फीस/वीएपीटी/आई एस	2,00,000.00	शासकीय प्रतिभूतियों से आय	5,00,000.00
8.	पोस्टेज एवं टेलीफोन	1,20,000.00	एन पी ए रिकवरी	8,00,000.00
9.	ऑडिट फीस	23,000.00		
10.	घसारा (डेप्रिसियेशन)	1,30,000.00		
11.	स्टेशनरी, प्रिंटिंग एवं विज्ञापन	50,000.00		
12.	साधारण सभा खर्च	2,00,000.00		
13.	विविध व्यय	2,50,000.00		
14.	समाशोधन गृह व्यय	70,000.00		
15.	मशीनरी रख-रखाव	2,00,000.00		
16.	फोटोकॉपी एवं टायपिंग चार्जेस	22,000.00		
17.	कानूनी सलाह/स्टाम्प ड्यूटी	20,000.00		
18.	प्रवास एवं वाहन व्यय	30,000.00		
19.	जिला सहकारी संघ अनुदान	20,000.00		
20.	एन.पी.ए. प्रावधान	2,00,000.00		
21.	इनवेस्टमेंट डेप्रिसियेशन रिजर्व	2,00,000.00		
22.	ग्रेच्युटी	50,000.00		
23.	बुक्स	10,000.00		
24.	आयकर प्रावधान	8,50,000.00		
25.	सबक्रिप्शन	50,000.00		
26.	सिक्युरिटी चार्जेस	2,50,000.00		
27.	मोबाईल बैंकिंग चार्जेस	4,00,000.00		
28.	चुनाव खर्च	0.00		
	वर्ष का अनुमानित लाभ/हानि	20,00,000.00		
	योग	1,66,75,000.00	योग	1,66,75,000.00

रमेशचन्द्र गोयल
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी



Notes On Accounts for Balance Sheet as of 31-03-2026

Details regarding disclosure norms prescribed by UCB

- 1 Capital to Risk weight Asset Ratio (CRAR) %
- 2 Movement of CRAR

Previous Year	Current Year
41.88%	46.37%
- 3 Investment
 - a) Book Value Face Value
 8,42,78,000.00 8,50,00,000.00
 - b) Market Value of Investment
 8,29,58,500.00
 - c) Details of Issuer composition of NON SLR investment and NON performing NON-SLR Investment
 IPC Bank Share : 0.01 Lac

NON Performing NON SLR Investment
NIL
- 4 Advance against Real Estate, Construction Business and Housing (Amount in Lakhs)

Real Estate	:	NIL
Construction Business	:	63.31 Lakh
Housing	:	155.81 Lakh
- 5 Advance Against Share and Debenture :- **NIL**
- 6 Advances to Director their Relatives, Companies, Firms, In which they are interested.

Fund Base	:	9.61 Lacs
NON Fund Base	:	NIL
- 7 Cost of Deposit (Average) : 4.97%



8	NPAs		Rs. in Lakh	Percentage
	a) Gross NPA	:	39.75	7.29 %
	b) Net NPA	:	15.97	2.93 %
9	Movement In NPA		2025	2026
	a) Gross NPA	:	19.91	39.75
	b) Net NPA	:	0.00	15.97
10	Profitability			
	a) Interest income as percentage of working fund	:		10.01 %
	b) NON interest income as percentage of working fund	:		1.38 %
	c) Operating profit as percentage of working fund	:		1.47 %
	d) Return on Assets	:		8.11 %
	e) Business (Deposit plus Advance per Employee)	:		414.62 Lakh
	f) Profit per Employee	:		3.13 Lakh
11	Provision made towards NPA	:		23.78 Lakh
	Depreciation in Investment	:		13.20 Lakh
	Standard Assets Provision	:		2.43 Lakh
12	Movement in provision		2025	2026
	a) Towards NPA		19.91 Lakh	23.78 Lakh
	b) Towards Depreciation		9.09 Lakh	13.20 Lakh
	c) Toward Standard Assets		2.43 Lakh	2.43 Lakh
13	Foreign Currency Assets and Liabilities	:		NIL
14	Payment of DICGC Insurance Premium	:		Paid 06-11-2025 Amount 112163.48
15	Penalty Imposed By RBI	:		NIL
16	Restructured Accounts	:		NIL
17	Fixed Assets Valuation/ Revaluation	:		NIL

एन. सी. सराफ एण्ड कम्पनी
 चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट
 Firm Reg. No. 007779C
 दिपेश लिखार
 पार्टनर



अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, इन्दौर

अभय प्रशाल, 10, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452 003 (म. प्र.)

बैंक में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

क्र.	नाम	पद
1.	श्री रमेशचन्द्र गोयल	प्रबंधक
2.	श्री विजय पंवार	सहायक प्रबंधक
3.	श्री अनुपम वर्मा	सहायक प्रबंधक
4.	श्रीमती मनीषा सुपेकर	केशियर
5.	श्री नंदकिशोर तलोदिया	सब स्टॉफ



अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर

अभय प्रशाल, 10, रेसकोर्स रोड, इन्दौर - 452 003 (म. प्र.)
फोन : 0731-4004898

बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाएँ

- ◆ गोल्ड लोन मात्र 10.50% ब्याज दर पर (दैनिक शेष पर)
- ◆ हाउसिंग लोन मात्र 8.25 ब्याज दर पर (दैनिक शेष पर)
- ◆ दो-पहिया वाहन 11% एवं चार-पहिया वाहन 8.75% पर ऋण सुविधा आकर्षक ब्याज दर पर
- ◆ विभिन्न साइज के लॉकर न्यूनतम किराये पर समुचित पार्किंग व्यवस्था के साथ उपलब्ध
- ◆ बैंक द्वारा सभी ग्राहकों को इन्टरनेट सर्विसेस
- ◆ बचत खाता मात्र 1000/- रु. न्यूनतम बैलेन्स पर
- ◆ चालू खाता मात्र 5000/- रु. न्यूनतम बैलेन्स पर

खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज

- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास पते का प्रूफ
- दो नवीन फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज)



गोल्ड लोन

केवल 30 मिनट में

रमेशचन्द्र गोयल
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी

डॉ. प्रकाश बांगानी
अध्यक्ष



प्रति,
श्री/श्रीमती

.....

.....

..... इन्दौर (म. प्र.)

अरिहन्त अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बैंक लिमिटेड, इन्दौर

अभय प्रशाल, 10, रेसकोर्स रोड, इन्दौर – 452 003 (म. प्र.)

Ph. : 0731- 4004898 Mob. 📞 9203613432

E-mail : arihant@aucbl.com Website : www.arihantucb.bank.in